



COM 518

M.Com III<sup>rd</sup> SEMESTER EXAMINATION, 2022-23

COMMERCE

(Monetary and Fiscal Planning and Control)

(CBCS MODE)

AFFIX PRESCRIBED  
RUBBER STAMP

Date (तिथि) : \_\_\_\_\_

**Paper ID**

(To be filled in the  
OMR Sheet)

**8468**

अनुक्रमांक (अंकों में) :

Roll No. (In Figures)

अनुक्रमांक (शब्दों में) :

Roll No. (In Words) :

Time : 1 Hour

समय : 1 घण्टा

Max. Marks : 60

अधिकतम अंक : 60

नोट : पुस्तिका में 40 प्रश्न दिये गये हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा।

**Important Instructions :**

1. The candidate will write his/her Roll Number only at the places provided for, i.e. on the cover page and on the OMR answer sheet at the end and nowhere else.
2. Immediately on receipt of the question booklet, the candidate should check up the booklet and ensure that it contains all the pages and that no question is missing. If the candidate finds any discrepancy in the question booklet, he/she should report the invigilator within 10 minutes of the issue of this booklet and a fresh question booklet without any discrepancy be obtained.

**महत्वपूर्ण निर्देश :**

1. अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जो इसके लिए दिये गये हैं, अर्थात् प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा साथ दिये गये ओ०एम०आर० उत्तर पत्र पर, तथा अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे।
2. प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी को जाँच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के भीतर ही कक्ष परिप्रेक्षक को सूचित करना चाहिए और बिना त्रुटि की दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लेना चाहिए।

1. Which of the following may be called as fiscal deficit?

- (A) Revenue expenditure – Revenue receipts
- (B) Capital expenditure – Capital receipts
- (C) Total expenditure – Total receipts other than borrowings
- (D) Revenue expenditure + Capital expenditure – Revenue receipts

2. What is Repo rate ?

- (A) Is the rate at which RBI lends to state Government
- (B) Is the rate at which international aid agencies lends to RBI
- (C) Is the rate at which the RBI lends to Banks in case of short maturity
- (D) None of these

1. निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कहा जा सकता है ?

- (A) राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां
- (B) पूँजी व्यय – पूँजी प्राप्तियां
- (C) कुल व्यय – उधार के अलावा कुल प्राप्तियां
- (D) राजस्व व्यय + पूँजी व्यय – राजस्व प्राप्तियां

2. रेपो दर क्या है ?

- (A) वह दर है जिस पर आर० बी० आई राज्य सरकार को उधार देता है
- (B) वह दर है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसिया आर० बी० आई० को उधार देती है
- (C) वह दर है जिस पर आर० बी० आई० अल्प परिपक्वता के मामले में बैंकों को उधार देता है
- (D) इनमें से कोई नहीं

3. Bank rate is decided by which of the following agencies ?
- (A) SEBI  
(B) RBI  
(C) SBI  
(D) Ministry of finance
4. Inflation rate leased on consumer price index increases if :
- (A) Bank rate is decreased  
(B) Reverse repo rate is increase  
(C) SLR is increased  
(D) Repo rate is increased
5. CRR Stands for :
- (A) Cash Reserve Ratio  
(B) Cash Research Ratio  
(C) Credit Reserve Ratio  
(D) Credit Research Ratio
6. Full form of B.O.P. ?
- (A) Balance of Property  
(B) Balance of Payment  
(C) Black of Payment  
(D) None of these
3. बैंक दर निम्न में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती हैं ?
- (A) सेबी  
(B) आर० बी० आई०  
(C) एस० बी० आई०  
(D) वित्त मंत्रालय
4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है यदि :
- (A) बैंक दर घटी है  
(B) रिवर्स रेपो रेट बढ़ा है  
(C) एस० एल० आर० बढ़ा है  
(D) रेपो रेट बढ़ा है
5. सी० आर० आर० का मतलब है :
- (A) कैश रिजर्व रेसियो  
(B) कैश रिसर्च रेसियो  
(C) क्रेडिट रिजर्व रेसियो  
(D) क्रेडिट रिसर्च रेसियो
6. बी० ओ० पी० का पूर्ण रूप है :
- (A) बैलेन्स ऑफ प्रापर्टी  
(B) बैलेन्स ऑफ पेमेन्ट  
(C) ब्लैक ऑफ पेमेन्ट  
(D) इनमें से कोई नहीं

- |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. SDRs stand for :</p> <p>(A) Special Data Right</p> <p>(B) Standard Drawing Right</p> <p>(C) Special Drawing Right</p> <p>(D) None of these</p>                                               | <p>7. एस० डी० आर० का मतलब है :</p> <p>(A) स्पेशल डाटा राइट</p> <p>(B) स्टैन्डर्ड ड्राइविंग राइट</p> <p>(C) स्पेशल ड्राइविंग राइट</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>                                       |
| <p>8. Full form of IMF?</p> <p>(A) International Monetary Fund</p> <p>(B) International Money Fund</p> <p>(C) Inter Monetary Fund</p> <p>(D) None of these</p>                                     | <p>8. आई० एम० एफ० का मतलब है :</p> <p>(A) इन्टरनेशनल मानेट्री फण्ड</p> <p>(B) इन्टरनेशनल मनी फण्ड</p> <p>(C) इन्टर मानेट्री फण्ड</p> <p>(D) इनमे से कोई नहीं</p>                                        |
| <p>9. Head office of World Bank?</p> <p>(A) Geneva</p> <p>(B) Washington, DC</p> <p>(C) London</p> <p>(D) New Delhi</p>                                                                            | <p>9. विश्व बैंक का मुख्यालय है ?</p> <p>(A) जेनेवा</p> <p>(B) वाशिंगटन, डीसी</p> <p>(C) लन्दन</p> <p>(D) नई दिल्ली</p>                                                                                 |
| <p>10. Measures of supply of money in India is ?</p> <p>(A) <math>M_1</math></p> <p>(B) <math>M_1, M_2</math></p> <p>(C) <math>M_1, M_2, M_3</math></p> <p>(D) <math>M_1, M_2, M_3, M_4</math></p> | <p>10. भारत में धन की आपूर्ति के उपाय हैं :</p> <p>(A) <math>एम_1</math></p> <p>(B) <math>एम_1, एम_2</math></p> <p>(C) <math>एम_1, एम_2, एम_3</math></p> <p>(D) <math>एम_1, एम_2, एम_3, एम_4</math></p> |

- |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>11. Instruments of money market includes:</p> <p>(A) Treasury Bill</p> <p>(B) Commercial Paper</p> <p>(C) Certificate of deposit</p> <p>(D) All of these</p>                | <p>11. मुद्रा बाजार के उपकरणों में शामिल है :</p> <p>(A) राजकोष बिल</p> <p>(B) वाणिज्यिक पत्र</p> <p>(C) जमा प्रमाणपत्र</p> <p>(D) इनमें से सभी</p>                           |
| <p>12. Maximum period of commercial paper is :</p> <p>(A) 3 months</p> <p>(B) 6 months</p> <p>(C) 12 months</p> <p>(D) 36 months</p>                                           | <p>12. वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि है :</p> <p>(A) 3 महीने</p> <p>(B) 6 महीने</p> <p>(C) 12 महीने</p> <p>(D) 36 महीने</p>                                                   |
| <p>13. Which of these can be an economic evil of money?</p> <p>(A) Class struggle</p> <p>(B) Trade cycle</p> <p>(C) Encouragement to loan tendency</p> <p>(D) All of these</p> | <p>13. इनमें से कौन सा मुद्रा की आर्थिक बुराई हो सकती है ?</p> <p>(A) वर्ग - संघर्ष</p> <p>(B) व्यापार चक्र</p> <p>(C) ऋण प्रवृत्ति को प्रोत्साहन</p> <p>(D) इनमें से सभी</p> |
| <p>14. FDI stands for :</p> <p>(A) Foreign Data Investment</p> <p>(B) Foreign Direct Investment</p> <p>(C) Free Direct Investment</p> <p>(D) None of these</p>                 | <p>14. एफ डी आई का मतलब है :</p> <p>(A) फारेन डाटा इनवेस्टमेंट</p> <p>(B) फारेन डाइरेक्ट इनवेस्टमेंट</p> <p>(C) फ्री डाइरेक्ट इनवेस्टमेंट</p> <p>(D) इनमें से कोई नहीं</p>    |

- |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15. Reserve Bank of India was founded in :</p> <p>(A) 1934</p> <p>(B) 1935</p> <p>(C) 1949</p> <p>(D) 1955</p>                                                         | <p>15. भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी:</p> <p>(A) 1934</p> <p>(B) 1935</p> <p>(C) 1949</p> <p>(D) 1955</p>                               |
| <p>16. Reserve Bank of India was nationalized in :</p> <p>(A) 1935</p> <p>(B) 1949</p> <p>(C) 1969</p> <p>(D) 1980</p>                                                    | <p>16. भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था ?</p> <p>(A) 1935</p> <p>(B) 1949</p> <p>(C) 1969</p> <p>(D) 1980</p>                       |
| <p>17. Who is the present Governor of RBI ?</p> <p>(A) Shaktikanta Das</p> <p>(B) Vimal Jalan</p> <p>(C) Urjit Patel</p> <p>(D) C.D. Deshmukh</p>                         | <p>17. आर० बी० आई० के वर्तमान गवर्नर कौन है:</p> <p>(A) शक्तिकान्त दास</p> <p>(B) विमल जालान</p> <p>(C) उर्जित पटेल</p> <p>(D) सी० डी० देशमुख</p> |
| <p>18. The objective of credit control are :</p> <p>(A) Price stability</p> <p>(B) Reduction in Interest Rate</p> <p>(C) Reducing the deficit</p> <p>(D) All of these</p> | <p>18. साख नियंत्रण के उद्देश्य है :</p> <p>(A) मूल्य स्थिरता</p> <p>(B) ब्याज दर में कमी</p> <p>(C) घाटे को कम करना</p> <p>(D) ये सभी</p>        |

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19. When was IMF founded?                              | 19. आई० एम० एफ० की स्थापना कब हुई थी :                   |
| (A) 1946                                               | (A) 1946                                                 |
| (B) 1944                                               | (B) 1944                                                 |
| (C) 1974                                               | (C) 1974                                                 |
| (D) 1951                                               | (D) 1951                                                 |
| 20. Monetary policy and Fiscal policy are mutually :   | 20. मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति परस्पर है :            |
| (A) Contradictory                                      | (A) असंगत                                                |
| (B) Co-operative                                       | (B) सहयोगी                                               |
| (C) Sometimes contradictory and Sometimes Co-operative | (C) कभी-कभी असंगत और कभी-कभी सहयोगी                      |
| (D) None of these                                      | (D) इनमें से कोई नहीं                                    |
| 21. Every governor of the IMF has tenure of :          | 21. आई० एम० एफ० के प्रत्येक गवर्नर का कार्यकाल होता है : |
| (A) 3 years                                            | (A) 3 वर्ष                                               |
| (B) 4 years                                            | (B) 4 वर्ष                                               |
| (C) 5 years                                            | (C) 5 वर्ष                                               |
| (D) 7 years                                            | (D) 7 वर्ष                                               |
| 22. The main objective of IMF are :                    | 22. आई० एम० एफ० का मुख्य उद्देश्य है :                   |
| (A) Stability in exchange rates                        | (A) विनिमय दरों में स्थिरता                              |
| (B) Multilateral payments                              | (B) बहुपक्षीय भुगतान                                     |
| (C) Providing economic assistance                      | (C) आर्थिक सहायता प्रदान करना                            |
| (D) All of the above                                   | (D) उपरोक्त सभी                                          |

23. At present the transactions of the IMF are expressed in :
- (A) SDRs  
(B) Dollar  
(C) Gold  
(D) All of the above
24. What is the defect of the barter system?
- (A) Lack of double coincidence of wants  
(B) Difficulty in the measurement of value  
(C) Difficulty in store of value  
(D) All of these
25. Which among the following is the near money?
- (A) Bonds  
(B) Insurance policy  
(C) Securities  
(D) All of these
26. What does the fiscal deficit relate to under the government budget?
- (A) Taxes short fall  
(B) Disinvestment shortfall  
(C) Borrowing requirement  
(D) Disinvestment requirement
23. वर्तमान में आई० एम० एफ० के लेनदेन व्यक्त किए जाते हैं :
- (A) एस० डी० आर० में  
(B) डालर में  
(C) सोना में  
(D) उपरोक्त सभी में
24. वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या दोष है?
- (A) आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव  
(B) मूल्य के माप में कठिनाई  
(C) मूल्य के भंडारण में कठिनाई  
(D) ये सभी
25. निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम मुद्रा हैं :
- (A) बाण्ड्स  
(B) बीमा योजना  
(C) प्रतिभूतियां  
(D) इनमें से सभी
26. सरकारी बजट के तहत राजकोषीय घाटा किससे सम्बन्धित है :
- (A) कर की कमी  
(B) विनिवेश की कमी  
(C) उधार की आवश्यकता  
(D) विनिवेश की आवश्यकता

27. What is referred to as a primary deficit?
- (A) Interest payments  
(B) Borrowings  
(C) Both (A) and (B)  
(D) Borrowing minus interest payments
28. Choose the capital expenditures from the following:
- (A) Subsidies  
(B) Share purchases  
(C) Defence purchases  
(D) Interest payments
29. Which of these increases liabilities in the government budget?
- (A) Direct taxes  
(B) Borrowings  
(C) Loan recovery  
(D) Dividends from PSUs
30. When revenues are greater than expenditures, then there is \_\_\_\_\_ budget.
- (A) Surplus  
(B) Deficit  
(C) Neutral  
(D) Extra
27. प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं ?
- (A) ब्याज भुगतान  
(B) उधारी  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) उधारी माइनस ब्याज भुगतान
28. निम्नलिखित में से पूँजीगत व्यय चुने :
- (A) सब्सिडी  
(B) शेयर खरीद  
(C) रक्षा खरीद  
(D) ब्याज भुगतान
29. इनमें से कौन सा सरकारी बजट में देनदारी को बढ़ाता है :
- (A) प्रत्यक्ष कर  
(B) उधारी  
(C) ऋण वसूली  
(D) पीएसयू से लाभांश
30. जब राजस्व व्यय से अधिक होता है, तो बजट होता है।
- (A) आधिक्य  
(B) घाटा  
(C) तटस्थ  
(D) अतिरिक्त

31. FRBM Act was passed on :
- (A) 2004  
(B) 2000  
(C) 2003  
(D) 2002
32. The most important source of Public revenue is :
- (A) Interest  
(B) Taxes  
(C) License fee  
(D) Dividends and profit
33. Balance of payment is an accounting statement for \_\_\_\_.
- (A) Business year  
(B) New year  
(C) Accounting year  
(D) All of the above
34. Import and Export of goods are known as \_\_\_\_.
- (A) Nominal trade  
(B) Invisible trade  
(C) Visible trade  
(D) None of the above
31. एफ० आर० बी० एम० अधिनियम पारित किया गया :
- (A) 2004  
(B) 2000  
(C) 2003  
(D) 2002
32. लोक राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है:
- (A) ब्याज  
(B) कर  
(C) लाइसेंस शुल्क  
(D) लाभांश और लाभ
33. भुगतान संतुलन एक लेखांकन विवरण है :
- (A) व्यावसायिक वर्ष  
(B) नया वर्ष  
(C) लेखा वर्ष  
(D) उपरोक्त सभी
34. माल के आयात और निर्यात के रूप में जाना जाता है :
- (A) सामान्य व्यापार  
(B) अदृश्य व्यापार  
(C) दृश्य व्यापार  
(D) इनमें से कोई भी नहीं

35. Balance of payment uses the \_\_\_\_\_ system of accounting.
- (A) Single entry  
(B) Double entry  
(C) Cash basis  
(D) Accrual basis
36. The monetary policy framework is formulated by :
- (A) Central Government  
(B) SIDBI  
(C) RBI  
(D) NSE
37. The instrument of monetary policy is :
- (A) Quantitative credit control  
(B) Selective credit control  
(C) Both (A) and (B)  
(D) None of the above
38. The function of money is :
- (A) Medium of exchange  
(B) Measure of value  
(C) Store of value  
(D) All of the above
35. भुगतान संतुलन लेखांकन की \_\_\_\_\_ प्रणाली का उपयोग करता है।
- (A) एकल प्रवेश  
(B) दोहरी प्रविष्टि  
(C) नकदी आधार  
(D) प्रोद्धवन आधार
36. मौद्रिक नीति रूपरेखा \_\_\_\_\_ द्वारा तैयार की जाती है :
- (A) केन्द्र सरकार  
(B) सिडबी  
(C) आर० बी० आई०  
(D) एन० एस० ई०
37. मौद्रिक नीति का साधन है :
- (A) मात्रात्मक ऋण नियंत्रण  
(B) चयनात्मक ऋण नियंत्रण  
(C) दोनों (A) और (B)  
(D) इनमें से कोई नहीं
38. मुद्रा का कार्य हैं :
- (A) विनिमय का माध्यम  
(B) मूल्य का पैमाना  
(C) मूल्य संचय  
(D) उपरोक्त सभी

39. The other name of IBRD is :

- (A) The World Bank
- (B) Foreign Bank
- (C) IMF
- (D) MIGA

39. आई० बी० आर० डी० का दूसरा नाम है :

- (A) विश्व बैंक
- (B) विदेशी बैंक
- (C) आई० एम० एफ०
- (D) मीगा

40. Which of the following is a direct tax?

- (A) Sales tax
- (B) Excise duty
- (C) Estate duty
- (D) Entertainment tax

40. निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है?

- (A) बिक्री कर
- (B) उत्पाद शुल्क
- (C) संपदा शुल्क
- (D) मनोरंजन कर

\*\*\*\*\*